

MOTHER'S SARI

मां की साड़ी



Mother's Sari

मां की साड़ी

I will wear

मैं पहनूंगी



**I wrap it once, then twice**  
मैंने एक बार लपेटी, दुबारा लपेटी

**It is still very-very long**  
साड़ी अभी भी बहुत लंबी है



**When the snake wraps then? It is still long.**

अगर सांप लपेटे फिर? तब भी लंबी



**When the crocodile wraps then? It is still long.**

अगर मगरमच्छ लपेटे फिर? तब भी लंबी



**Mother, who can wear your saree?**

मां तुम्हारी साड़ी कौन पहन सकता है?

**Mother laughed**

मां हंसी



**I will wear this long sari**  
मैं ही पहनूंगी इतनी लंबी साड़ी